

पाषाण युग में लकड़ी की कलाकृतियाँ

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में हुए अध्ययन द्वारा पारंपरिक [पाषाण युग](#) के दृष्टिकोण को चुनौती दी गई है, यह सुझाव देते हुए कि इसे 'काष्ठ युग' कहना अधिक उपयुक्त हो सकता है।

- यह परपिरेक्यू जर्मनी के शॉनगिन में 300,000 से 400,000 वर्ष पुरानी **लकड़ी की कलाकृतियों** की खोज और विश्लेषण द्वारा उत्पन्न हुआ है।
- हाल ही में मध्य प्रदेश के घुघवा में प्रागैतहासिक कलाकृतियों की खोज से पता चलता है कि प्राचीन शिकारी-संग्राहक औजार बनाने के लिये जीवाश्म लकड़ी का उपयोग करते थे, जो अनुमानतः 10,000 वर्ष से अधिक पुरानी है, जिसमें उसी क्षेत्र में पाए गए मध्यम आकार के टुकड़े और माइक्रोलिथ शामिल हैं।

नोट:

- भारत और जर्मनी में मानव उपस्थिति हजारों साल पुरानी है, जहाँ नर्मदा घाटी में 1.5 मिलियन वर्ष पुराने पत्थर के औजार और राइन घाटी में 800,000 वर्ष पुराने पत्थर के औजार पाए गए हैं।


लकड़ी के औजार पाषाण युग के वचारों को कैसे चुनौती देते हैं?

- **परष्कृत लकड़ी के उपकरण:** कलाकृतियों ने साधारण नुकीली छड़ियों से परे लकड़ी की तकनीक की एक विधि शृंखला का प्रदर्शन किया।
- **प्रारंभिक मानव व्यवहार और कृषमताएँ:** शिकार के प्राचीन औजारों की खोज से इस विचार पर संदेह पैदा होता है कि ये लोग केवल सफाई कर्मी (scavengers) थे, तथा इससे यह पता चलता है कि वे पहले **संयोजना बनाने, रणनीतिक रूप से शिकार करने तथा औजारों की मरम्मत और पुनः उपयोग करने में सक्षम थे।**
- **संरक्षण पूर्वाग्रह:** शोध से पता चलता है कि **पुरातत्त्व में कार्बनिक पदार्थों के बजाय पत्थर को संरक्षित करने का पूर्वाग्रह है, जो प्रागैतहासिक काल में लकड़ी की प्रासंगिकता के संदर्भ में हमारी समझ को विकृत कर सकता है, बावजूद इसके कि संरक्षित लकड़ी की कलाकृतियाँ इसकी महत्त्वपूर्ण भूमिका का प्रदर्शन करती हैं।**



पाषाण युग क्या है?

- पाषाण युग लगभग 3.4 मिलियन वर्ष पहले शुरू हुआ, जब आधुनिक इथियोपिया में होमनिडिस ने सर्वप्रथम **पत्थर के औजारों** का उपयोग किया। यह अवधि लगभग 6,000 से 4,000 वर्तमान से पूर्व (Before Present- BP) तक रही, मानव इतिहास का 99% हिस्सा है।
- भारत में पाषाण युग: भारत में पाषाण युग के दौरान, उपलब्ध विविध भूभागों, जल, पौधों व पशुओं के कारण **लोगहमिलय और सधु-गंगा के मैदानों को छोड़कर** देशभर में रहने में सक्षम थे। भारतीय पुरापाषाण काल को तीन विकासात्मक चरणों में वर्गीकृत किया गया है:
 - **नमिन पुरापाषाण काल (600,000 वर्ष ईसा पूर्व से 150,000 वर्ष ईसा पूर्व):** इसमें चॉपर और काटने के उपकरण, हाथ की कुल्हाड़ी, क्लीवर, चाकू आदि बनाने के लिये **बड़े कंकड़** अथवा गुच्छे का उपयोग किया जाता था। नमिन पुरापाषाण काल में **औजारों के निर्माण की दो सांस्कृतिक परंपराएँ थीं:**
 - सोनयिन कंकड़-उपकरण परंपरा
 - प्रायद्वीपीय भारतीय हस्त कुल्हाड़ी-क्लीवर परंपरा।
 - **मध्य पुरापाषाण काल (165,000 ईसा पूर्व से 31,000 वर्ष ईसा पूर्व):** यह स्क्रैपर, पॉइंट्स, बोरर्स और अन्य उपकरण तैयार करने के लिये कोर से निकाले गए **वभिन्न प्रकार के फ्लेक्स** के उपयोग पर आधारित है।
 - **उच्च पुरापाषाण काल (40,000 वर्ष ईसा पूर्व से 12,000 वर्ष ईसा पूर्व):** इस चरण में हुए सुधारों में पंच तकनीक का उपयोग करके वभिन्न प्रकार के उपकरण जैसे **ब्लैटेड ब्लेड, पेननाइफ ब्लेड, दाँतेदार कनारों वाले ब्लेड** और लंबे समानांतर-पक्षीय ब्लेड से तीर बट्टि बनाना शामिल था।
- मध्य पाषाण कालीन संस्कृति: इस युग के दौरान, लोग अर्द्ध-स्थायी और अस्थायी बस्तियों में रहते थे, गुफाओं व खुले क्षेत्रों का उपयोग करते थे, दफन अनुष्ठानों (Burial Rituals) का अभ्यास करते थे, कलात्मक कषमताओं का प्रदर्शन करते थे, सांस्कृतिक नरिंतरता बनाए रखते थे तथा छोटे शकार के शकार के लिये सूक्ष्म पाषाण उपकरणों का उपयोग करते थे।
- नवपाषाण काल: इसने कृषि और **पशुपालन** की शुरुआत को चहिनति किया।
 - नवपाषाण संस्कृति के प्रारंभिक प्रमाण **मसिर और मेसोपोटामिया के उपजाऊ अर्द्धचंद्र क्षेत्र, सधु क्षेत्र, भारत की गंगा घाटी व चीन** में भी पाए गए हैं।





UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????????:

प्रश्न. नमिनलखिति युगमों पर वचिर कीजयि : (2021)

(ऐतहासकि स्थान) : (ख्यातिका कारण)

- | | | |
|-----------------|---|------------------|
| 1. बुरज़होम | : | शैलकृत देव मंदिर |
| 2. चंद्रकेतुगढ़ | : | टेराकोटा कला |
| 3. गणेश्वर | : | ताम्र कलाकृतयिँ |

उपर्युक्त युगमों में से कौन-सा/कौन-से सही सुमेलति है/हैं?

- (a) केवल 1
(b) 1 और 2

- (c) केवल 3
(d) 2 और 3

उत्तर: (d)

प्रश्न. नमिन्लखिति में से कौन-सा एक हडप्पा स्थल नहीं है? (2019)

- (a) चन्हुदडो
(b) कोट दीजी
(c) सोहगौरा
(d) देसलपुर

उत्तर: (c)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/wooden-artifacts-of-stone-age>

